

थाना बण्डा को मिली बडी कामयाबी,

सोने व अष्ट धातु के नकली सिक्कों को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड, 06 शातिर

ठग गिरफ्तार, 150 नकली सोने/अष्टधातु के सिक्के बरामद ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब/शस्त्र बिक्री व कसीदगी/ अपराध पर प्रभावी रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री संजीव कुमार के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में थाना बण्डा पुलिस को बडी सफलता मिली ।

आज दिनांक 04.09.2022 की प्रातः जब थाना बण्डा पुलिस क्षेत्र में मामूर थे तो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खुटार क्षेत्र के कुछ लोग जो सोने व अष्ट धातु के नकली सिक्कों को असली बताकर जनता के कई भोले भाले लोगों से भारी धनराशी की ठगी कर चुके हैं । वही लोग आज धीमरपुरा जाने वाले रास्ते पर बैठे हैं और इनके पास भारी संख्या में नकली /सोने व अष्ट धातु के सिक्के हैं और आज भी यह लोग किसी के साथ ठगी करने वाले हैं । सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना बण्डा पुलिस द्वारा धीमरपुरा जाने वाले रास्ते से 06 अभियुक्तगण 1- नन्हें, 2- प्रकाश 3- राजू 4- सुनील 5- अनुपम 6- विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया । जिनके पास से 04 अदद कथित सोने के सिक्के पीली धातु व 146 अदद नकली व अष्ट धातु के नकली सिक्के बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर उपरोक्त छः अभियुक्त गण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- नन्हें पुत्र छोटेलाल नि०ग्रा० महेशपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- प्रकाश पुत्र छोटेलाल नि०ग्रा० महेशपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- राजू पुत्र बृजबिहारी लाल नि० मोहल्ला बजरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- सुनील पुत्र श्रीकृष्ण नि० मोहल्ला बजरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- अनुपम पुत्र दिनेश कुमार नि० मोहल्ला बजरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,
- 6- विनोद कुमार पुत्र माखनलाल नि० मोहल्ला बजरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1-मु०अ०सं० 737/2022 धारा 420 भादवि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 04 अदद नकली /कथित सोने के सिक्के,
- 2- 146 नकली /कथित अष्ट धातु के सिक्के ,

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग भोले भाले व्यक्तियों को नकली सोने के सिक्के / अष्ट धातु सिक्कों को असली बताकर ठगी करते हैं । हमारे द्वारा पूर्व में ठगी की कई घटनाएं कारित की गयी हैं जिनकी

जानकारी की जा रही है। पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- उ०नि० श्री किरनपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- हे०का० 181संजीत शुक्ला थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- का० 2278 कुलदीप थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- का० 2262 अजयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 6- का० 2542 प्रवीण भाटी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 7- का० 745 मोनू चौधरी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 8-का० 2117 सौरभ थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 9- का० 2799 सूरज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 10- का० 206 अरविन्द कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 11- का० 2550 अंकित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 12- का० 2587 विशाल कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर